



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 39] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 29—अक्तूबर 5, 2007 (आश्विन 7, 1929)  
No. 39] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 29—OCTOBER 5, 2007 (ASVINA 7, 1929)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग I—खण्ड 2

### [PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 14 सितम्बर 2007

सं. आरएस/2(i)/2002/98-कार्मिक--डॉ. योगेन्द्र नारायण ने दिनांक 14 सितम्बर 2007 के अपराह्न से महासचिव, राज्य सभा के पद का कार्यभार त्याग दिया है।

सी.बी. राय, संयुक्त निदेशक

दिनांक 17 सितम्बर 2007

सं. आरएस.3(iii)/2007/99-कार्मिक--राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में अनुसंधान सहायक श्री रंजन चतुर्वेदी को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में नियमित आधार पर 8,000-275-13,500/- रु. के वेतनमान में अनुसंधान अधिकारी के ग्रेड में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

सी.बी. राय, संयुक्त निदेशक

सं. आरएस.3(viii)/2007/100-कार्मिक--राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में कनिष्ठ संसदीय भाषांतरकार श्री कमलेश कुमार मिश्रा को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में नियमित आधार पर 10,000-325-15,200/- रु. के वेतनमान में संसदीय भाषांतरकार के ग्रेड में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

सी.बी. राय, संयुक्त निदेशक

दिनांक 18 सितम्बर 2007

सं. आरएस.3(vi)/2007/102-कार्मिक--राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में उप निदेशक (निजी सचिव सेवा) श्रीमती अनीता चुध को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में नियमित आधार पर 12,750-375-16,500/- रु. के वेतनमान में संयुक्त निदेशक (निजी सचिव सेवा) के ग्रेड में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

सी.बी. राय, संयुक्त निदेशक

## लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 31 मई 2007

सं. पीएफ 36-आर(3)/जीएन-5897/एएन-1/2007--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर निम्नलिखित अधिकारी 31 मई, 2007 (अपराह्न) से सेवानिवृत्त हो गए हैं:--

क्र. सं.	नाम	पदनाम
1.	श्री पी. डी. मालवालिया	निदेशक
2.	श्री एच. एम. भट्ट	उप सचिव ग्रेड-II
3.	श्रीमती कानन बाला	कार्यकारी/विधायी/समिति/प्रोटोकॉल अधिकारी
आर.सी. आहूजा, संयुक्त सचिव		

नई दिल्ली, दिनांक 02 जुलाई 2007

सं. पीएफ 963-आर(3)/जीएन-5913/एएन-1/2007--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर निम्नलिखित अधिकारी 30 जून, 2007 (अपराह्न) से सेवानिवृत्त हो गए हैं:--

क्र. सं.	नाम	पदनाम
1.	श्री एच. के. कपूर	निदेशक (पीएसएस)
2.	श्री आर. टी. पिल्ले	निदेशक (लार्डिस)
3.	श्रीमती आशा सूद	संयुक्त निदेशक (पीएसएस) ग्रेड-I

अभिजीत कुमार, निदेशक

दिनांक 26 जुलाई 2007

सं. पीएफ 1011-आर(2)/जीएन-5931/एएन-1/2007--श्रीमती अनु भाटिया ने निजी सचिव के ग्रेड में परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।

2. यह अधिसूचना दिनांक 11 मई, 2005 की अधिसूचना सं. जीएन-5458/एएन-1/2005 के क्रम में है।

अभिजीत कुमार, निदेशक

सं. पीएफ 1209-आर(2)/जीएन-5932/एएन-1/2007--श्री सुमेश कुमार गुप्ता ने मुद्रण प्रबंधक के ग्रेड में परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।

2. यह अधिसूचना दिनांक 11 मई, 2005 की अधिसूचना सं. जीएन-5465/एएन-1/2005 के क्रम में है।

अभिजीत कुमार, निदेशक

दिनांक 27 जुलाई 2007

सं. पीएफ 189-आर(2)/जीएन-5930/एएन-1/2007--निम्नलिखित अधिकारियों ने कार्यकारी/विधायी/समिति/प्रोटोकॉल अधिकारी के ग्रेड में परीक्षा-अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है:--

क्र. सं.	नाम
1.	श्रीमती एन. के. मथारू
2.	श्री राज कुमार शर्मा
3.	श्री एस. के. गांगुली
4.	श्रीमती जागृति तेवतिया
5.	श्रीमती गीता परमार
6.	श्री राम सरूप बांगा
7.	श्री राकेश भारद्वाज
8.	श्री रमेश नेभनानी
9.	श्रीमती विजय चोपड़ा
10.	श्री सी. बाबू राव
11.	श्री कृष्ण कुमार

2. यह अधिसूचना दिनांक 5 मार्च, 2005 की अधिसूचना सं. जीएन-5385, 5386 तथा 5387 के क्रम में है।

अभिजीत कुमार, निदेशक

दिनांक 31 जुलाई 2007

सं. पीएफ 1306-आर(3)/जीएन-5933/एएन-1/2007--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर निम्नलिखित अधिकारी 31 जुलाई, 2007 (अपराह्न) से सेवानिवृत्त हो गए हैं:--

क्र. सं.	नाम	पदनाम
1.	डॉ. राम नरेश सिंह	संयुक्त निदेशक (अनुवाद) ग्रेड-I
2.	श्री जगमोहन स्वरूप वत्स	संयुक्त निदेशक (अनुवाद) ग्रेड-I
3.	श्री एल.सी. अवस्थी	संयुक्त निदेशक (सुरक्षा) ग्रेड-I
4.	श्रीमती उषा माथुर	संयुक्त निदेशक (लार्डिस) ग्रेड-I (तदर्थ)
5.	श्री के. एम. शर्मा	संयुक्त निदेशक (मुद्रण) ग्रेड-II

अभिजीत कुमार, निदेशक

दिनांक 20 अगस्त 2007

सं. पीएफ 962-आर(2)/जीएन-5938/एएन-1/2007--श्री चक्रपाणि मिश्रा, स्थानापन्न संसदीय रिपोर्टर ग्रेड-II को 5 मई, 2007 से संसदीय रिपोर्टर ग्रेड-II के रूप में स्थायी आधार पर नियुक्त किया जाता है।

2. यह अधिसूचना दिनांक 18 मई, 2005 की अधिसूचना सं. जीएन-5469/एएन-1/2005 के क्रम में है।

अभिजीत कुमार, निदेशक

सं. पीएफ 188-आर(2)/जीएन-5939/एएन-1/2007--निम्नलिखित अधिकारियों ने कार्यकारी/विधायी/समिति/प्रोटोकॉल अधिकारी के ग्रेड में परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।

1. श्री राम चन्द्र शर्मा
2. श्री एम. के. रेवाड़ी
3. श्रीमती गुरशरण कौर मोही

2. यह अधिसूचना दिनांक 14 फरवरी, 2005 की अधिसूचना संख्या जीएन-5348/एएन-1/2005 और दिनांक 5 मार्च, 2005 की अधिसूचना संख्या जीएन-5386-1/2005 के क्रम में है।

अभिजीत कुमार, निदेशक

दिनांक 31 अगस्त 2007

सं. पीएफ 94-आर(3)/जीएन-5966/एएन-1/2007--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर निम्नलिखित अधिकारी 31 अगस्त, 2007 (अपराह्न) से सेवानिवृत्त हो गए हैं:--

क्र. सं.	नाम	पदनाम
1.	श्री आर.सी. जैन	उप सचिव ग्रेड-II
2.	श्रीमती गुरजीत कौर भुमब्राओ	उप सचिव ग्रेड-II

अभिजीत कुमार,  
निदेशक

योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 10 अगस्त 2007

सं. ए-12025/4/97-प्रशा. II--योजना आयोग की दिनांक 16 जनवरी, 2007 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में योजना आयोग में निम्नलिखित सात नियमित आर्थिक अधिकारियों की तदर्थ नियुक्ति की अवधि को योजना आयोग में रिक्त जी सी एस पदों के स्थान पर 8,000-275-13,500/- रुपये के वेतनमान में अनुसंधान अधिकारियों के रूप में एतद्वारा उनके नामों के समक्ष दर्शायी गई अवधि हेतु, या पदों के नियमित आधार पर भरे जाने तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बढ़ाई जाती है:--

क्र. सं.	अधिकारियों के नाम	जिस तारीख तक तदर्थ नियुक्ति को बढ़ाया जाता है।
1	2	3
	(सर्व/श्री)	
1.	बाबू लाल	31.12.2007
2.	एन. वैकटेश्वरालू	31.12.2007

1	2	3
3.	के.के. मकवाना	31.12.2007
4.	श्याम सिंह	31.12.2007
5.	वाई.एन. खरे	31.12.2007
6.	डा. आर.वी.पी. सिंह	31.12.2007
7.	एम जोजफ यूजीन राज	13.7.2007

2. तदर्थ नियुक्ति उपरोक्त नामित सात अधिकारियों में से किसी को भी अनुसंधान अधिकारी के ग्रेड में नियमित नियुक्ति हेतु दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी और उनमें से किसी के द्वारा अनुसंधान अधिकारी के ग्रेड में तदर्थ आधार पर दी गई कोई सेवा न तो अनुसंधान अधिकारी के ग्रेड में वरिष्ठता के उद्देश्य हेतु और न ही अगले उच्च ग्रेड की पदोन्नति हेतु पात्रता के लिए गिनी जाएगी।

एन. के. शर्मा, अवर सचिव

दिनांक 10 सितम्बर 2007

सं. ए-12025/05/99-प्रशा.II--योजना आयोग की दिनांक 01.06.2004 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में, राष्ट्रपति, योजना आयोग में, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (कोयला) के रूप में, श्री किशोर चौधरी की प्रतिनियुक्ति की अवधि आगामी एक वर्ष की अवधि के लिए अर्थात् चौथे वर्ष हेतु दिनांक 31.05.2007 से आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं।

एन. के. शर्मा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 10 सितम्बर 2007

सं. ए-43011/15/07-प्रशा.I--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 29 जून, 2007 के कार्यालय ज्ञापन सं. 4/2/2006-सी.एस. I (डी) के तहत चयन सूची वर्ष 2000 के सी.एस.एस. (उप सचिव) के चयन ग्रेड में उनके सम्मिलित किए जाने के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति, श्री एम.पी. सिंह (सी.एस.एल. सं. 3282) और सुश्री आशा (सी.एस. एल. सं. 3292) को दिनांक 01.07.2000 से नियमित आधार पर उप सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

एस. केशवा अय्यर, अवर सचिव

दिनांक 17 सितम्बर 2007

सं. ए-43011/19/2005-प्रशा.I--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 11 सितम्बर 2007 के पत्रांक 07/1/2007-ई.ओ. (एस.एम.II) द्वारा सूचित मंत्रिमंडल नियुक्ति समिति के अनुमोदन के अनुपालन में राष्ट्रपति, योजना आयोग में वरिष्ठ सलाहकार (परिवहन), श्री बी. एन. पुरी को दिनांक 11 सितम्बर, 2007 से उनके लिए

वैयक्तिक रूप से उन्नयन प्रदान करते हुए 26,000/- रु. (स्थिर) प्रतिमाह का वेतन प्रदान करते हैं।

एस. केशवा अय्यर, अवर सचिव

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 31 अगस्त 2007

सं. 193/22/6/2007(बी.एस.)--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर भारत निर्वाचन आयोग में अवर सचिव, श्री बीरबल शर्मा दिनांक 31.08.2007 (अपराह्न) से सेवानिवृत्त हो गये।

स्टैंडहोप युहलुंग, अवर सचिव

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 7 अगस्त 2007

सं. ए-32012/2/2006-प्रशा. I (वि.का.)--राष्ट्रपति, विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग में उप सरकारी काउंसिल, श्री बी. एल. चौधरी को दिनांक 11.07.2007 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक, उसी विभाग में रु. 14,300-400-18,300/- के वेतनमान में अपर सरकारी काउंसिल (भारतीय विधि सेवा के ग्रेड-II) के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं। श्री बी.एल. चौधरी की अपर सरकारी काउंसिल के तौर पर नियुक्ति ओ.ए. सं. 1609/2006 और 450/2006 के बारे में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के दिनांक 17 अप्रैल, 2007 के आदेश के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिए जाने वाले निर्णय के अंतिम परिणाम तथा विभिन्न न्यायालयों में दायर तत्संबंधी मुकदमों के निपटान के अध्यधीन है।

किरण पुरी, निदेशक (स्थापना)

सं. ए-32012/2/2006-प्रशा. I (वि.का.)--राष्ट्रपति, विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग में उप सरकारी काउंसिल, श्री ए.सी. प्रकाश को दिनांक 11.07.2007 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक, उसी विभाग में रु. 14,300-400-18,300/- के वेतनमान में अपर सरकारी काउंसिल (भारतीय विधि सेवा के ग्रेड-II) के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं। श्री ए.सी. प्रकाश की अपर सरकारी काउंसिल के तौर पर नियुक्ति ओ.ए. सं. 1609/2006 और 450/2006 के बारे में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के दिनांक 17 अप्रैल, 2007 के आदेश के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिए जाने वाले निर्णय के अंतिम परिणाम तथा विभिन्न न्यायालयों में दायर तत्संबंधी मुकदमों के निपटान के अध्यधीन है।

किरण पुरी, निदेशक (स्थापना)

सं. ए-32012/2/2006-प्रशा. I (वि.का.)--राष्ट्रपति, विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग में उप सरकारी काउंसिल, श्री इन्द्र कुमार को दिनांक 11.07.2007 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक, उसी विभाग में रु. 14,300-400-18,300/- के वेतनमान में अपर सरकारी

काउंसिल (भारतीय विधि सेवा के ग्रेड-II) के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं। श्री इन्द्र कुमार की अपर सरकारी काउंसिल के तौर पर नियुक्ति ओ.ए. सं. 1609/2006 और 450/2006 के बारे में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के दिनांक 17 अप्रैल, 2007 के आदेश के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिए जाने वाले निर्णय के अंतिम परिणाम तथा विभिन्न न्यायालयों में दायर तत्संबंधी मुकदमों के निपटान के अध्यधीन है।

किरण पुरी, निदेशक (स्थापना)

सं. ए-32012/2/2006-प्रशा. I (वि.का.)--राष्ट्रपति, विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग में उप सरकारी काउंसिल, श्री रामायण यादव को दिनांक 11.07.2007 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक, उसी विभाग में रु. 14,300-400-18,300/- के वेतनमान में अपर सरकारी काउंसिल (भारतीय विधि सेवा के ग्रेड-II) के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं। श्री रामायण यादव की अपर सरकारी काउंसिल के तौर पर नियुक्ति ओ.ए. सं. 1609/2006 और 450/2006 के बारे में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के दिनांक 17 अप्रैल, 2007 के आदेश के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिए जाने वाले निर्णय के अंतिम परिणाम तथा विभिन्न न्यायालयों में दायर तत्संबंधी मुकदमों के निपटान के अध्यधीन है।

किरण पुरी, निदेशक (स्थापना)

सं. ए-32012/2/2006-प्रशा. I (वि.का.)--राष्ट्रपति, विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग में उप सरकारी काउंसिल, श्री जी. जयरामुलु को दिनांक 11.07.2007 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक, उसी विभाग में रु. 14,300-400-18,300/- के वेतनमान में अपर सरकारी काउंसिल (भारतीय विधि सेवा के ग्रेड-II) के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं। श्री जी. जयरामुलु की अपर सरकारी काउंसिल के तौर पर नियुक्ति ओ.ए. सं. 1609/2006 और 450/2006 के बारे में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के दिनांक 17 अप्रैल, 2007 के आदेश के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिए जाने वाले निर्णय के अंतिम परिणाम तथा विभिन्न न्यायालयों में दायर तत्संबंधी मुकदमों के निपटान के अध्यधीन है।

किरण पुरी, निदेशक (स्थापना)

सं. ए-32012/2/2006-प्रशा. I (वि.का.)--राष्ट्रपति, विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग में उप सरकारी काउंसिल, श्री जे.टी. सुलक्षण राव को दिनांक 11.07.2007 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक, उसी विभाग में रु. 14,300-400-18,300/- के वेतनमान में अपर सरकारी काउंसिल (भारतीय विधि सेवा के ग्रेड-II) के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं। श्री जे. टी. सुलक्षण राव की अपर सरकारी काउंसिल के तौर पर नियुक्ति ओ.ए. सं. 1609/2006 और 450/2006 के बारे में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के दिनांक 17 अप्रैल, 2007 के आदेश के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिए

जाने वाले निर्णय के अंतिम परिणाम तथा विभिन्न न्यायालयों में दायर तत्संबंधी मुकदमों के निपटान के अध्यक्षीन है।

किरन पुरी, निदेशक (स्थापना)

सं. ए.32012/2/2006-प्रशा. I (वि.का.)--राष्ट्रपति, विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग में उप सरकारी काउंसिल, श्री एस. के. डुल्लो को दिनांक 11.07.2007 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक, उसी विभाग में रु. 14,300-400-18,300/- के वेतनमान में अपर सरकारी काउंसिल (भारतीय विधि सेवा के ग्रेड-II) के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं। श्री एस. के. डुल्लो की अपर सरकारी काउंसिल के तौर पर नियुक्ति ओ.ए. सं. 1609/2006 और 450/2006 के बारे में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के दिनांक 17 अप्रैल, 2007 के आदेश के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिए जाने वाले निर्णय के अंतिम परिणाम तथा विभिन्न न्यायालयों में दायर तत्संबंधी मुकदमों के निपटान के अध्यक्षीन है।

किरन पुरी, निदेशक (स्थापना)

नई दिल्ली, दिनांक 06 सितम्बर 2007

सं. ए.12023/10/2001-प्रशा. III (वि.का.)--आयकर अपीलीय अधिकरण में लेखा सदस्य श्री बी.एल. खत्री अधिवर्षिता की आयु अर्थात् 62 वर्ष के होने पर आयकर अपीलीय अधिकरण सदस्य (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम, 1963 के नियम 11 के अनुसार दिनांक 09 जून, 2007 के अपराह्न को सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं।

यशवंत सिंह, उप सचिव

ग्रह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 12 सितम्बर 2007

सं. I-18012/20/2006-आई.पी.एस.-I--राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 कि नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय पुलिस सेवा के तमिलनाडु संवर्ग के निम्नलिखित सदस्यों को, उनके नाम के सामने विनिर्दिष्ट तारीखों से, भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी करते हैं :--

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	भारतीय पुलिस सेवा में स्थायीकरण की तारीख
(सर्व श्री)		
1.	एम. टी. गणेशमूर्ति	21.05.2004
2.	सी. चन्द्रशेखर	21.05.2004
3.	सी. ईश्वरमूर्ति	21.05.2004
4.	के. शण्मुगवेल	21.05.2004

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 12 सितम्बर 2007

सं. 24012/45/2006-स्था. (ख)--राष्ट्रपति, श्री ज्ञान प्रकाश अग्रवाल, भारतीय आयुध फौजरी सेवा (आई.ओ.एफ.एस.) को कर्मचारी चयन आयोग के मुम्बई स्थित पश्चिम क्षेत्रीय कार्यालय में दिनांक 27 अगस्त, 2007 (पूर्वाह्न) से पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, क्षेत्रीय निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

सुनील के. अरोड़ा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 12 सितम्बर 2007

सं. ए. 32013/6/2007-प्रशा. I (जी)--राष्ट्रपति, डॉ. स्यामल कुमार सरकार, भारतीय प्रशासनिक सेवा (पश्चिम बंगाल : 79) को, 12 सितम्बर, 2007 पूर्वाह्न से 5 वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, 18,400-500-22,400 रुपये के वेतनमान में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

बी. के. वेलुकुट्टी, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 13 सितम्बर 2007

सं. ए. 14013/02/2005-अ.भा.से.-III--राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय प्रशासनिक सेवा के गुजरात राज्य संवर्ग के निम्नलिखित सदस्यों को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथि से भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थायी करते हैं :--

क्र. सं.	नाम	बैच	स्थायीकरण की तिथि
1.	श्री जे. सी. रावैर	1996	25.04.2004
2.	श्री एम. बी. परमार	1997	25.04.2004
3.	श्री आर. एम. पटेल	1997	25.04.2004
4.	श्री एन. आर. पाण्ड्या	1997	25.04.2004
5.	श्री आर. एम. शर्मा	1997	25.04.2004
6.	श्री आर. आर. मेहता	1997	25.04.2004

जी. सी. पाण्डेय, अवर सचिव

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 31 अगस्त 2007

सं. 07, फा. सं. 6/1/2007-ई.एस.--राष्ट्रपति, न्यायमूर्ति श्री सी. के. महजन, अध्यक्ष, सम्पत्त संपत्ति अपील अधिकरण (ए टी एफ पी) को धन शोधन

निवारण अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अपील अधिकरण के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार 20 अगस्त, 2007 (पूर्वाह्न) से अध्यक्ष समपहत संपत्ति अपील अधिकरण का पद धारित करने की अवधि तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, समपहत संपत्ति अपील अधिकरण के अध्यक्ष रहते हुए अतिरिक्त प्रभार सौंपते हैं।

नवीन चन्द्र, निदेशक

सं. 8, फा. सं. 6/6/2005-ई.एस.--राष्ट्रपति, श्री अरूण कुमार अग्रवाल को धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के अंतर्गत 22,400-525-24,500 रुपये के वेतनमान में दिनांक 20 अगस्त, 2007 के पूर्वाह्न से तीन वर्षों की अवधि के लिए या 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, सदस्य अपील अधिकरण के रूप में नियुक्त करते हैं।

नवीन चन्द्र, निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 14 सितम्बर 2007

सं. 2/2007, फा. सं. ए-15011/1/2007-स.प्रा.--राष्ट्रपति, भारतीय राजस्व सेवा की अधिकारी श्रीमती एस. उमा वैकटेशन (आयकर: 1994) को प्रतिनियुक्ति आधार पर सक्षम प्राधिकारी एवं प्रशासक [तस्कर एवं विदेशी मुद्रा छल साधक (सम्पत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 तथा स्वपक औषधि एवं मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985] के चेन्नई कार्यालय में दिनांक 27 अगस्त, 2007 के अपराह्न से चार साल की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

एस. के. त्यागी, निदेशक (मुख्यालय)

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 20 अगस्त 2007

भारतीय सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क स्थापना

सं. 53/2007, फा. सं. ए-39012/02/2007-प्रशा.-II--राष्ट्रपति, श्री विपिन सपरा, अपर आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर, दिल्ली द्वारा दिया त्यागपत्र 15.06.2007 (अपराह्न) से स्वीकार करते हैं।

आलोक अग्रवाल, अवर सचिव

दिनांक 24 अगस्त 2007

भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) स्थापना

सं. 56/2007, फा. सं. ए-38012/19/2007-प्रशा.-II--राष्ट्रपति, श्री एल शंकरावाडीवेलु, संयुक्त आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, पुदुच्चेरी के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के नोटिस को सी. सी. एस. (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 48-ए के अंतर्गत दिनांक 23.08.2007 से स्वीकार करते हैं।

आलोक अग्रवाल, अवर सचिव

दिनांक 27 अगस्त 2007

सं. 54/2007, फा. सं. ए-38012/12/2007-प्रशा.-II--राष्ट्रपति, सीमा शुल्क उपायुक्त (निवारक), मुम्बई, श्री पी. एम. परब की सी.सी.एस. (पेंशन) रूल्स, 1972 के नियम 48 के अंतर्गत दिनांक 15.08.2007 से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति की सूचना को स्वीकार करते हैं। इस स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति की सूचना इस शर्त के साथ स्वीकार की जाती है कि सी.सी.एस. (पेंशन) रूल्स के नियम 9 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्रवाई जारी रहेगी।

आलोक अग्रवाल, अवर सचिव

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 07 सितम्बर 2007

सं. 19011/17/2007-प्रशा. 2--राष्ट्रपति, सुश्री श्यामा शर्मा बंसिया, भारतीय राजस्व सेवा (आईटी : 88) को आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय में दिनांक 6 सितम्बर, 2007 के पूर्वाह्न से अगले पांच वर्षों तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, निदेशक नियुक्त करते हैं।

वी. रामकुमार, अवर सचिव

सं. ए-12011/21/2005-प्रशा. 2--राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 20.08.2007 के का.ज्ञा. सं.-5/2/2006-सीएस-1 (डेस्क) द्वारा परिचालित वर्ष 2001 और 2002 के लिए केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I (अवर सचिव) की चयन सूची (अवर सचिव) में उन्हें शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय के निम्नलिखित अधिकारियों को प्रत्येक के सामने यथाउल्लिखित उनके संबंधित चयन सूची वर्ष की पहली जुलाई से और अगले आदेशों तक नियमित आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा में ग्रेड-I (अवर सचिव) नियुक्त करते हैं:--

क्र. सं.	नाम	सीएसएल संख्या	चयन सूची वर्ष	नियुक्ति की तारीख
सर्वश्री				
1.	राकेश मल्होत्रा	4037	2001	01.07.2001
2.	पी. पी. मुरलीधरन	4059	2001	01.07.2001
3.	रोहित माथुर	3432	2002	01.07.2002
4.	सुश्री श्रेयसी चौधरी	3946-ए	2002	01.07.2002
5.	ए. महालिंगम	4092	2002	01.07.2002
6.	ए. के. अजमानी	4123	2002	01.07.2002

2. उपरिलिखित अधिकारियों की केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I (अवर सचिव) में परस्पर वरिष्ठता उस ग्रेड में उनकी नियुक्ति की वास्तविक तारीख को ध्यान में रखे बगैर उनकी संबंधित चयन सूचियों में दी गई क्रम संख्या के अनुसार होगी। नियमित आधार पर अवर सचिव के ग्रेड में उपरिलिखित चयन सूचियों में शामिल किए ग्रेड

अधिकारियों की नियुक्ति दिल्ली उच्च न्यायालय में सिविल रिट याचिका सं. 3269/2003, सिविल रिट याचिका सं.- 3912/2003 और सिविल रिट याचिका सं. 13352/2005 में अंतिम निर्णय के अध्वधीन होगी।

वी. रामकुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 17 सितम्बर 2007

सं. ए-12011/5/2005-प्रशा. 1ए--राष्ट्रपति, श्री अशोक कुमार को दिनांक 23 अगस्त, 2007 के पूर्वाह्न से और अगले आदेशों तक 10,000-325-15,200/- रु. के वेतनमान में वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में समावेशन आधार पर समूह 'ए' राजपत्रित, उप नियंत्रक सहायता, लेखा एवं लेखा परीक्षा के पद पर नियुक्त करते हैं।

नीलम चोहरा, अवर सचिव

(विनिवेश विभाग)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 12 सितम्बर 2007

सं. 19011/3/2002-प्रशासन--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 23 अगस्त, 2007 के आदेश संख्या 4/9/2006-सीएस-I (डैस्क) के अनुसरण में राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अवर सचिव (चयन सूची : 1996) श्री सूर्य माइती को विनिवेश विभाग में 12,000-375-16,500 रुपए के वेतनमान में 10 सितम्बर, 2007 के पूर्वाह्न से वैयक्तिक उन्नयन के आधार पर उप सचिव (तदर्थ) के पद पर नियुक्त करते हैं। उप सचिव के ग्रेड में तदर्थ पदोन्नति निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन है :--

- (i) तदर्थ आधार पर पदोन्नति से उन्हें इस ग्रेड में अनिश्चित काल तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में सम्मिलित किए जाने अथवा चयन ग्रेड में वरीयता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं मिलेगा;
- (ii) तदर्थ नियुक्ति को किसी भी समय बिना कोई कारण बताए समाप्त किया जा सकता है।

एस. के. शर्मा, अवर सचिव

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक जून 2007

सं. ए-12023/16/98-प्रशासन IV (वाल्जुम. III)--महानिदेशक, जांच एवं पंजीकरण (डीजीआईएंडआर) के कार्यालय में अपर महानिदेशक (आई एंड आर), श्री जी.आर. भाटिया केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम एफआर 56 (1-क) (क) एवं (ख) के अंतर्गत दिनांक 01.02.2007 से सरकारी सेवा से स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त हो गए।

पी.सी. प्रतिहारी, अवर सचिव

दिनांक 24 अगस्त 2007

सं. ए-12023/13/2006-प्रशासन IV--राष्ट्रपति एमआरटीपी आयोग में 12,000-375-16,500/- रुपए के वेतनमान में संयुक्त निदेशक (आर्थिक), श्री आई.एस. सेन की तदर्थ नियुक्ति की अवधि में अगले 6 माह की अवधि अर्थात् दिनांक 14.08.2007 से 13.02.2008 तक या नियमित आधार पर पद के भरे जाने तक या एमआरटीपी आयोग के परिसमापन तक, जो भी पहले हो, के लिए विस्तार करते हैं।

पी. सी. प्रतिहारी, अवर सचिव

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 3 सितम्बर 2007

सं. 28/2007 (ए-32012/1/2007-स्था. I--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 25 जुलाई, 2007 के आदेश सं. 5-6-2007-सीएम. I (डैस्क) के अनुसरण में राष्ट्रपति द्वारा केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) की अनुभाग अधिकारी सुश्री एफ. देबोरा इनिता, सीएसएस सं. 5494-ए, जन्म तिथि : 19.06.1973, को दिनांक 27 अगस्त, 2007 के पूर्वाह्न से वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग में तदर्थ आधार पर ग्रेड-I (अवर सचिव) में नियुक्त किया जाता है।

2. उपर्युक्त अधिकारी की तदर्थ नियुक्ति निम्नलिखित के अध्वधीन है :--

- I. तदर्थ पदोन्नति से उक्त ग्रेड में अनिश्चित काल तक बने रहने या नियमित नियुक्ति हेतु चयन सूची में शामिल होने या ग्रेड-I में वरिष्ठता का दावा करने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा।
- II. तदर्थ नियुक्ति को कोई कारण बताए बिना किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।
- III. उपर्युक्त नियुक्ति एम.ए. सं. 2170/2006, ओ.ए. सं. 2793/2005 और एम.ए. सं. 2710/2005 में केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली के दिनांक 11.01.2007 के आदेश के अध्वधीन होगी।

अनुराग सक्सेना, निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 13 सितम्बर 2007

सं. टी-49015/1/2005-बागान "क"--राष्ट्रपति, द्वारा श्रीमती रोशनी सेन, आईएस (प. बंगाल : 1993) को दिनांक 31.08.2007 (अप्रह) से चार वर्ष की अवधि तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, चाय बोर्ड के उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया जाता है।

के. के. फुल्ल, अवर सचिव

## विदेश व्यापार महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 11 सितम्बर 2007

सं. 18/2007(फा. सं. ए 11013/1/2007-मा.सं.वि.-I-4242)--राष्ट्रपति, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन मुद्रा, गुजरात में एसईजेड के लिए विकास आयुक्त के पद को राजकीय राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 18,400-500-22,400 रुपये के वेतनमान में भारतीय व्यापार सेवा (आईटीएस) समूह 'क' संवर्ग में शामिल करने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

इसे कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की डायरी सं. I-11012/1/2006-सीआरडी दिनांक 30.08.2007 एवं वाणिज्य विभाग के का.ज्ञा. सं. ए-6(10)/2002-ईपीजेड दिनांक 26 जून, 2007 की सहमति से जारी किया जाता है।

आर. एस. गुजराल,  
विदेश व्यापार महानिदेशक  
एवं पदेन अपर सचिव

## वस्त्र मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 3 सितम्बर 2007

सं. 15/2007 (फा. सं. ए-19011/6/2005-स्था.) :--श्री सुदृप्त राय, आईएस (हि. प्र. : 78) महासचिव, इन्टरनेशनल जूट स्टडी ग्रुप, ढाका, बंगलादेश के रूप में, इस पद के कार्यग्रहण की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति की विदेशी सेवा शर्तों पर उनका चयन हो जाने के परिणामस्वरूप दिनांक 5 सितम्बर, 2007 के अपराह्न से संयुक्त सचिव, वस्त्र मंत्रालय के पद से कार्यमुक्त हो गए हैं।

मुक्ता निधि समनोत्रा, निदेशक

## इस्पात मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 03 सितम्बर 2007

सं. 2(12)/2006-स्थापना--केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति का कार्यकाल पूरा होने पर श्री आशुतोष बरनवाल (आईसी एंड सीईएस 1990), निदेशक, इस्पात मंत्रालय को दिनांक 03 सितम्बर, 2007 (अपराह्न) से कार्यमुक्त किया जाता है। तदनुसार श्री बरनवाल की सेवाएं इसी तारीख से उनके मूल केंद्र को सौंपी जाती हैं।

जी. वैधीश्वरण, अवर सचिव

## सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 13 अगस्त 2007

सं. ए-18011/57/2004-स्थापना--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का.ज्ञा. सं. 4/2/2006-के सं.-I (डी) दिनांक 29 जून, 2007 के माध्यम से वर्ष 2000 के लिए केन्द्रीय सचिवालय सेवा की चयन श्रेणी की सूची में सम्मिलित करने के परिणाम स्वरूप, राष्ट्रपति केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I अधिकारी श्री जगजीत सिंह को केन्द्रीय

सचिवालय सेवा (उप सचिव) की चयन श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं।

पी. एस. वर्मा, अवर सचिव

## विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110016, दिनांक 29 अगस्त 2007

सं. ए-12025/01/07-प्रशा.1(ए)--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 20 अगस्त, 2007 के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/2/2006-सी. एस. 1 (डैस्क) द्वारा केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड 1 (अवर सचिव) की नियुक्ति के लिए वर्ष 2002 की चयनसूची में इनके नाम सम्मिलित किए जाने के फलस्वरूप, राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों की विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I अधिकारी (अवर सचिव) के रूप में 01.07.2002 से नियमित आधार पर सहर्ष नियुक्त करते हैं--

1. श्री एल.के. चावला
2. श्री सी. आर. गंगाधरन
2. श्री एस.पी. कतनौरिया

2. अवर सचिव के पद पर उनकी वास्तविक नियुक्ति की तारीख से वे अपने वेतन के पुनर्निर्धारण पर बकाया के पात्र होंगे। इसके अतिरिक्त, एफ. आर. 22 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार वे अपने वेतन के निर्धारण के लिए विकल्प देने के पात्र होंगे।

सीता राम गुप्ता, डैस्क अधिकारी

सं. ए-12025/01/07-प्रशा.1(ए)--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 20 अगस्त, 2007 के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/2/2006-सी. एस. 1 (डैस्क) द्वारा केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-1 (अवर सचिव) की नियुक्ति के लिए वर्ष 2001 की चयनसूची में इनके नाम सम्मिलित किए जाने के फलस्वरूप, राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों की विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I अधिकारी (अवर सचिव) के रूप में 01.07.2001 से नियमित आधार पर सहर्ष नियुक्त करते हैं :--

1. श्री रवीन्द्र प्रसाद
2. श्री बी. के. रायचन्दानी

2. अवर सचिव के पद पर उनकी वास्तविक नियुक्ति की तारीख से वे अपने वेतन के पुनर्निर्धारण पर बकाया के पात्र होंगे। इसके अतिरिक्त, एफ. आर. 22 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार वे अपने वेतन के निर्धारण के लिए विकल्प देने के पात्र होंगे।

सीता राम गुप्ता, डैस्क अधिकारी



## वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग

नई दिल्ली-110016, दिनांक 11 सितम्बर 2007

सं. ए-19018/02/2007-स्था.--राष्ट्रपति, केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला के वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी श्री विनय कुमार को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग में 12,000-375-16,500/- रुपये के वेतनमान में 28.08.2007 के पूर्वाह्न से दो वर्ष की अवधि के लिए अथवा पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक, इनमें जो भी पहले हो, प्रतिनियुक्ति आधार पर वैज्ञानिक 'डी' के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. इस विभाग में श्री विनय कुमार की प्रतिनियुक्ति कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के समय-समय पर यथासंशोधित कार्यालय ज्ञापन सं. 2.29/91-स्था. (वेतन II) दिनांक 5 जनवरी 1994 के अनुदेशों के अनुसार विनियमित होगी।

एस. के. कालड़ा, अवर सचिव

## पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 22 अगस्त 2007

सं. ए. 19011/1/2001-पी-II(.)--राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के का.आ. सं. 4/2/2006-सीएस-I (डी) दिनांक 29 जून 2007 के द्वारा केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सी एस एस) के सेलेक्शन ग्रेड अधिकारियों की वर्ष 2000 की चयन सूचियों में सम्मिलित किए जाने के फलस्वरूप, श्री पी. एस. शर्मा को 12,000-375-16,500/- रु. के वेतनमान में नियमित उप सचिव के रूप में पर्यावरण और वन मंत्रालय में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

एम. एल. वाधवानी, अवर सचिव

## स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 11 सितम्बर 2007

सं. ए. 12025/5/2006/सी.एच.एस.-I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डा. (श्रीमती) निधि शर्मा को 25 जून, 2007 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 8,000-275-13,500/- रुपये के वेतनमान में अस्थायी आधार पर नियुक्त करते हैं। डा. (श्रीमती) निधि शर्मा को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, मुम्बई के अधीन चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात किया जाता है। डा. (श्रीमती) निधि शर्मा दो वर्षों की अवधि तक परिवीक्षा पर रहेंगे।

(श्रीमती) माया प्रकाश, अवर सचिव

## (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 13 अगस्त 2007

सं. 22012/03/2007-स्थापना-III--स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिनांक 20.07.2007 के आदेश संख्या

ए-32012/5/2005-सीएसएस-III के अनुसार 18,400--22,400/- रुपये के वेतनमान में सुपरटर्न ग्रेड में अपनी पदोन्नति के परिणामस्वरूप डॉ. एस. डी. खपाडे ने दिनांक 31.07.2007 (पूर्वाह्न) से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में उपायुक्त का पदभार ग्रहण कर लिया है।

2. डॉ. एस.डी. खपाडे को इस विभाग में उपायुक्त (आईडी) के रूप में तैनात किया गया है।

पी.जी. कलाधरन, अवर सचिव

## स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 12 सितम्बर 2007

सं. ए. 38013/2/2007-प्रशासन-I--सेवा निवृत्ति की आयु हो जाने के फलस्वरूप श्री आर. एल. माथुर, अनुसंधान अधिकारी (आई.डी.डी.), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय दिनांक 31.08.2007 के अपराह्न से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं।

बी. एन. प्रसाद, उप निदेशक, प्रशासन (बी.एन.पी.)

## कृषि मंत्रालय

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 06 सितम्बर 2007

सं. ए-19011/16/2007-प्रशासन-1--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर श्री राजीव प्रताप दूबे को पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग में 8,000-275-13,500/- रुपये के वेतनमान में दिनांक 31 अगस्त, 2007 के पूर्वाह्न से अगले आदेश तक सहायक निदेशक (मत्स्यन बंदरगाह) नियुक्त करते हैं।

पी. एल. मीना, अवर सचिव

(कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 12 सितम्बर 2007

सं. ए-19013/34/2004-स्था.--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेश संख्या 4/2/2007-सी.एस.-1 दिनांक 16 अगस्त 2007 के अनुसरण में वर्तमान में कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग में 24.8.2004 (पूर्वाह्न) से तदर्थ आधार पर उप सचिव पद पर कार्यरत केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सी.एस.एस.) के अधिकारी श्री राम अवतार को 01.07.1999 से नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं। श्री राम अवतार का वेतन 1 जुलाई 1999 से कल्पित आधार पर निर्धारित किया जाएगा। तथापि, वे 24.08.2004 (पूर्वाह्न) अर्थात् जिस तारीख से उन्होंने उप सचिव के पद का कार्यभार ग्रहण किया है, से वास्तविक लाभ प्राप्त करेंगे।

देवेन्द्र कुमार छतवाल, अवर सचिव

## युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 27 अगस्त 2007

सं. एफ. 1-18/2004-युवा सेवा-I--नेहरू युवा केन्द्र संगठन नियमावली के नियम 9(क) के अनुसरण में, श्री एस. राजा कुमार, और श्री एस.एन. सुब्बाराव को भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित व्यक्तियों के अंतर्गत दो रिक्तियों पर नेहरू युवा केन्द्र संगठन के शासी निकाय के सदस्य के रूप में एतद्द्वारा नामित किया जाता है।

2. श्री एस. राजा कुमार और श्री एस.एन. सुब्बाराव की सदस्यता की अवधि उनके नामांकन की तारीख से तीन वर्ष अथवा अगले आदेशों तक इनमें से जो भी पहले हो, के लिए होगी। यह नेहरू युवा केन्द्र संगठन के उपनियमों के अन्य उपबंधों के अधीन होगा।

शारदा अली खान, निदेशक (यु.से.)

## सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 10 सितम्बर 2007

सं. 17014/32/97-एससीडी-IV--राष्ट्रपति, श्री संजीव कुमार मित्तल, भा.प्र.से., वित्तीय सलाहकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को श्री मृत्युंजय साहू के स्थान पर राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम के निदेशक मंडल में शासकीय निदेशक के रूप में तत्काल प्रभाव से और अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

नीलाम्बुज शरण, उप सचिव

सं. 17014/32/97-एससीडी-IV--राष्ट्रपति, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम के संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद के अनुच्छेद 52(vi) के अनुसरण में श्रीमती रेणुका कृष्णन डिस्का, सहायक महाप्रबंधक (कारपोरेट कम्युनिकेशन एंड चैंज डिपार्टमेंट), भारतीय स्टेट बैंक को श्री रवि बंसल, उप महाप्रबंधक के स्थान पर शासकीय निदेशक के रूप में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम के निदेशक मंडल में तत्काल प्रभाव से और अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

नीलाम्बुज शरण, उप सचिव

नई दिल्ली-110001, दिनांक 11 सितम्बर 2007

सं. 16011/2/2002-एससीडी-IV--राष्ट्रपति, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के संगम अनुच्छेद के अनुच्छेद 56 के अनुसार श्री संजीव कुमार मित्तल को श्री मृत्युंजय साहू के स्थान पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के निदेशक मंडल में संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के रूप में तत्काल प्रभाव से और अगले आदेशों तक शासकीय निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

आर. एस. मीणा, निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 12 सितम्बर 2007

सं. 1-9/2007-डी.डी.-IV--राष्ट्रपति, नियुक्ति संबंधी मंत्रिमंडल समिति, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का कार्यालय ज्ञापन संख्या 4/15/2007-ई.ओ. (एसएम-I) दिनांक 5 जुलाई, 2007 के अनुसरण में, श्री अतुल प्रसाद, भा.प्र.से. (बिहार : 87) को श्री विनोद अग्रवाल, भा.प्र.से. (झा : 80) के स्थान पर 18,400-500-22,400/- रुपए के वेतनमान में दिनांक 22 अगस्त, 2007 से 5 वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो तक के लिए ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता तथा बहुविकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय न्यास में संयुक्त सचिव तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

के. एन. मिश्रा, अवर सचिव

## राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 12 सितम्बर 2007

सं. 15-2/2005-स्था.--राष्ट्रपति, आयोग की दिनांक 18.04.2006 की समसंख्यक अधिसूचना के अनुक्रम में भी श्री पुरन्जय शर्मा, विधि अधिकारी को दिनांक 29.08.2007 से 28.08.2008 से एक वर्ष या अगले आदेशों तक की अवधि के लिए, जो भी पहले हो, विद्यमान शर्तों के आधार पर नियुक्त करते हैं।

पी.एम.एस. नारायणन, अवर सचिव

## राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

नई दिल्ली-110003, दिनांक 5 सितम्बर 2007

सं. 14/12/एनसीएसटी/2007-प्रशा.--राष्ट्रपति, श्री विल्फ्रेड लकड़ा भा.प्र.से. (सीजी : 73) को सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के रूप में दिनांक 31.08.2007 (अपराह) से नियुक्ति करते हैं।

आर. पी. वशिष्ठ, उप सचिव

## संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

## राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र

नई दिल्ली-110003, दिनांक 13 सितम्बर 2007

सं. ए-39012/1/1995-प्रशासन-II--राष्ट्रपति, एतद्द्वारा श्री सी. रवि कुमार, (कर्मचारी कोड सं. 2086), का राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र आंध्र प्रदेश राज्य एकक, हैदराबाद, से वैज्ञानिक/इंजीनियर ग्रेड "एस सी" के पद से त्यागपत्र दिनांक 17 दिसम्बर, 1996 की अपराह से स्वीकार करते हैं और उन्हें उसी दिन से सेवा से कार्यमुक्त किया जाता है।

पी. एस. पिल्लै, उप निदेशक (प्रशा. II)

## (डाक विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 05 सितम्बर 2007

सं. 4-6/2007-एसपीजी: राष्ट्रपति, इस समय सेना डाक सेवा में कार्यरत सूबेदार वी. कालीश्वरन को एफ.आर. 22 की खंड-II के अनुसरण में भारतीय डाक सेवा समूह 'क' के कनिष्ठ समयमान (8,000-275-13,500/- रु.) के ग्रेड में 03.04.2007 से अर्थात् वह तारीख, जिस दिन उनके आसन्न कनिष्ठ नामतः श्री सोमनाथ चुचरा को दिनांक 30.03.2007 के आदेश सं. 4-33/2005-एसपीजी के क्रम में पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण करेंगे, प्रोफार्मा पदोन्नति प्रदान करते हैं।

बी.पी. पंत, सहा. महानिदेशक (एसजीपी)

दिनांक 10 सितम्बर 2007

सं. 2-33/2003-एसपीजी--राष्ट्रपति, भारतीय डाक सेवा समूह 'क' के निम्नलिखित अधिकारियों को इस सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में गैर-प्रकार्यात्मक चयन ग्रेड में स्थानापन्न रूप से (वेतनमान 14,300-400-18,300 रु.) प्रत्येक अधिकारी के नाम के सामने उल्लिखित तारीख के अनुसार एन एफ एस जी में नियुक्ति की तारीख से, अगले आदेशों तक के लिए नियुक्त करते हैं :--

क्र.	अधिकारी का नाम	भर्ती का वर्ष	एनएफएसजी में नियुक्ति की तारीख
	सुश्री/सर्व/श्री		
1.	अमृत राज	1994	01.01.2007
2.	आकाशदीप चक्रवर्ती	1994	01.01.2007
3.	आर. आनंद	1994	01.01.2007
4.	आभा सिंह	1994	01.01.2007
5.	टी. मरियम्मा	1994	01.01.2007
6.	टी. वयू. मोहम्मद	1994	01.01.2007
7.	जे. टी. वेंकटेश्वरल्लु	1994	01.01.2007
8.	देवतरु चैटर्जी	1994	01.01.2007
9.	विनीत माथुर	1994	01.01.2007
10.	एन. विनोद कुमार	1994	01.01.2007
11.	शोभा मथाले	1994	01.01.2007
12.	टी. मंगमियांग	1994	01.01.2007

बी. पी. पंत, सहा. महानिदेशक (एसजीपी)

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 10 सितम्बर 2007

सं. ई (जी.पी.) 2005/1/42--राष्ट्रपति, महोदय, उत्तर रेलवे के भंडार विभाग के ग्रुप-बी अधिकारी श्री गिरधर सिंह, (अ.जा.) को

भारतीय रेल भंडार सेवा (आई.आर.एस.एस.) के कनिष्ठ वेतनमान में, 19.09.2000 से मूल रूप से नियुक्ति किए जाने का अनुमोदन करते हैं।

मैथ्यू जॉन, सचिव, रेलवे बोर्ड

सं. ई आर बी-I/2007/2/44--श्री के. सी. जेना, भा.रे.या.से., सदस्य (कार्मिक), रेलवे बोर्ड को 31.08.2007 के अपराह से अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड और भारत सरकार के पदेन प्रमुख सचिव के रूप में नियुक्त किया जाता है।

मैथ्यू जॉन, सचिव, रेलवे बोर्ड

सं. ई (जी.पी.) 2004/1/58--राष्ट्रपति महोदय, पश्चिम मध्य रेलवे के यातायात विभाग के ग्रुप-बी अधिकारी श्री एस.एस. अली की 16.04.2007 से उसी रेलवे में भारतीय रेल यातायात सेवा (आई.आर. टी.एस.) के कनिष्ठ वेतनमान में, वर्ष 2006-07 के पैन्ल में, नियुक्ति किए जाने का अनुमोदन करते हैं।

मैथ्यू जॉन, सचिव, रेलवे बोर्ड

सं. ईआरबी-I/2004/2/37--श्री ए.के. अबरोल, भा.पु.से. (प.बं.: 72), अपर महानिदेशक, रेल सुरक्षा बल, रेलवे बोर्ड को 31.08.2007 के पूर्वाह से 24,050-650-26,000/- रु. के ग्रेड में विशेष महानिदेशक, रेल सुरक्षा बल, रेलवे बोर्ड के पद पर स्वस्थाने अपग्रेडेशन प्रदान किया जाता है।

मैथ्यू जॉन, सचिव, रेलवे बोर्ड

दिनांक 12 सितम्बर 2007

सं. ई (ओ) III-2007/आरएन/24--कॉकण रेल कार्पोरेशन लि. में स्थायी समाहन होने के परिणामस्वरूप, श्री वी.सी. सिन्हा, सेलेक्शन ग्रेड/भा.रे.या.से. ने 01.08.2007 से रेल सेवा से त्यागपत्र दे दिया है।

मैथ्यू जॉन, सचिव, रेलवे बोर्ड

विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 10 सितम्बर 2007

सं. 23/07 फा. सं. 2/9/2007-प्रशा. दो-- राष्ट्रपति, श्री कपिल मोहन, भा.प्र.से. (कर्नाटक : 1990) को, 10 सितम्बर, 2007 के पूर्वाह से, उनके पांच वर्ष के सामान्य कार्यकाल की बाकी अवधि यानि 20 जून, 2009 तक या अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, विद्युत मंत्रालय में निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

आर.सी. अरोड़ा, अवर सचिव

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 11 सितम्बर 2007

सं. 18/24/2007-प्रशा. II:--राष्ट्रपति, राजभाषा विभाग के दिनांक 24.07.2007 के का.ज्ञा. सं. 5/3/2005-रा.भा. (सेवा) के

तहत सहायक निदेशक (रा.भा.) के पद पर पदोन्नति और सूचना और प्रसारण मंत्रालय में नामांकन होने के परिणामस्वरूप सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संवर्ग में वरिष्ठ अनुवादक, श्री दिलीप कुमार निगम को इसी मंत्रालय में 7,500-250-12,000/- रुपए के वेतनमान में दिनांक 24/07/2007 (पूर्वाह्न) से छह माह की अवधि के लिए या पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक, जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर सहायक निदेशक (रा.भा.) के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त नियुक्ति राजभाषा विभाग के उक्त कार्यालय ज्ञापन में यथा-उल्लिखित निबंधन एवं शर्तों द्वारा अभिशासित होगी।

राम फल, अवर सचिव

आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 20 अगस्त 2007

सं. एन-11027/16/2005 यूपीए-III :--राष्ट्रपति, द्वारा शहरी विकास मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा के नियमित अनुभाग अधिकारी श्री एम. जयचन्द्रन की आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय में तदर्थ आधार पर उप निदेशक (जेएनएनयूआरएम) पद पर नियुक्ति की अवधि को दिनांक 25.07.2007 (पूर्वाह्न) से 24 जनवरी 2008 तक अगले छः माह के लिए या जब तक कि इस पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति नहीं हो जाती, जो भी पहले हो, बढ़ायी जाती है।

2. उपर्युक्त नियुक्त आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय में जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के उप-मिशन निदेशालय में 10,000-325-15,200/- रुपए के वेतनमान में उप निदेशक (बाह्य संवर्ग) के एक रिक्त पद पर पूर्णतः तदर्थ आधार पर है और इस नियुक्ति से अधिकारी को भविष्य में इस पद पर अनिश्चित काल तक कार्य करने का, इस ग्रेड में वरिष्ठता का या उच्च ग्रेड आदि में प्रोन्नति की पात्रता का कोई अधिकार नहीं होगा। सरकार के पास संबंधित अधिकारी को कोई कारण बताए बिना नोटिस दिए बिना इस तदर्थ नियुक्ति को समाप्त करने का अधिकार होगा।

आर.सी. रंगा, अनुभाग अधिकारी (प्रशा.)

श्रम और रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 10 सितम्बर 2007

सं. ए-22012/1/2006-प्रशा.-I :--राष्ट्रपति जी, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I के निर्मांकित अधिकारियों को, केन्द्रीय सचिवालय सेवा

के ग्रेड-I की चयन सूची में उनके शामिल होने के परिणामस्वरूप, निम्नानुसार नियमित आधार पर नियुक्त करती हैं :--

क्र. सं.	नाम और पदनाम	सीएसएल सं.	चयन सूची वर्ष	नियुक्ति की तारीख
1.	श्री ए. के. अग्निहोत्री	4039	2001	01.07.2001 से
2.	सुश्री संयुक्ता राय	3878-ए	2002	01.07.2002 से
3.	श्री आर. के. अहलूवालिया	4132	2002	--यथोक्त --
4.	श्री ओ. पी. गुलियानी	4151	2002	--यथोक्त --

2. उक्त चयन सूची में शामिल अधिकारियों की अवर सचिव के ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्ति दिल्ली उच्च न्यायालय में सिविल रिट याचिका संख्या 3269/2003 और सिविल रिट याचिका सं. 13352/2005 के अंतिम नतीजे पर निर्भर करेगी।

प्रदीप गौड़, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 13 सितम्बर 2007

सं. ए-12025/14/2001-आईएसएच.II :--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नामों के आगे दी गई तारीख से एवं अगले आदेशों तक खान सुरक्षा महानिदेशालय, धनबाद में उप-निदेशक, (खनन) के पद पर नियुक्त करते हैं:--

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	उप-निदेशक (खनन) के ग्रेड में नियुक्ति की तारीख
1.	श्री भूषण प्रसाद सिंह	16.05.2007 (पूर्वा.)
2.	श्री देव कुमार	16.05.2007 (पूर्वा.)
3.	श्री श्याम सुन्दर प्रसाद	18.05.2007 (पूर्वा.)
4.	श्री राजीव पाल	25.05.2007 (पूर्वा.)
5.	श्री बिपुल बिहारी सतियार	04.04.2007 (पूर्वा.)
6.	श्री कमल कुमार शर्मा	15.06.2007 (पूर्वा.)
7.	श्री राम अवतार मीणा	28.06.2007 (पूर्वा.)
8.	श्री मनोरंजन डोले	29.05.2007 (पूर्वा.)

एम. एस. आजाद, अवर सचिव

## RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110 001, the 14th September 2007

No. RS/2(i)/2002/98-Perl.—Dr. Yogendra Narain has relinquished the charge of the office of the Secretary-General, Rajya Sabha in the afternoon of 14th September 2007.

C. B. RAI, Jt. Director

The 17th September 2007

No. RS. 3 (iii)/2007/99-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Shri Ranjan Chaturvedi, Research Assistant in the Rajya Sabha Secretariat to officiate in the grade of Research Officer in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- on regular basis in that Secretariat with immediate effect, until further orders.

C. B. RAI, Jt. Director

No. RS. 3 (viii)/2007/100-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Shri Kamlesh Kumar Mishra, Junior Parliamentary Interpreter in the Rajya Sabha Secretariat to officiate in the grade of Parliamentary Interpreter in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- on regular basis in that Secretariat with immediate effect, until further orders.

C. B. RAI, Jt. Director

The 18th September 2007

No. RS/3(vi)/2007/102-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Smt. Anita Chugh, Deputy Director (PSS) in the Rajya Sabha Secretariat to officiate on a regular basis in the grade of Joint Director (PSS) in the scale of pay of Rs. 12,750-375-16,500/- in that Secretariat, with immediate effect, until further orders.

C. B. RAI, Jt. Director

## LOK SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110 001, the 31st May 2007

No. PF. 36 R (3)/GN-5897/AN-I/2007.—On attaining the age of superannuation, the following Officers have retired from service with effect from the afternoon of 31st May, 2007 :—

Sl. No.	Name	Designation
1.	Shri P. D. Malvalia	Director
2.	Shri H. M. Bhatt	Dy. Secy. Gr.-II
3.	Smt. Kanan Bala	EO/LO/CO/PO

R. C. AHUJA, Jt. Secy.

New Delhi-110 001, the 2nd July 2007

No. PF. 963 R(3)/GN-5913/AN-I/2007.—On attaining the age of superannuation, the following Officers have retired from service with effect from the afternoon of 30th June, 2007 :—

Sl. No.	Name	Designation
1.	Shri H. K. Kapoor	Director (PSS)
2.	Shri R. T. Pillai	Director (LARRDIS)
3.	Smt. Asha Sood	Jt. Director (PSS) Grade-I

ABHIJIT KUMAR, Director

The 26th July 2007

No. PF. 1011-R(2)/GN-5931/AN-I/2007.—Smt. Anu Bhatia has satisfactorily completed the probation period in the grade of Private Secretary.

2. This is in continuation of Notification No. GN-5458/AN-I/2005 dated 11th May, 2005.

ABHIJIT KUMAR, Director

No. PF. 1209-R(2)/GN-5932/AN-I/2007.—Shri Sumesh Kumar Gupta has satisfactorily completed the probation period in the grade of Manager of Printing.

2. This is in continuation of Notification No. GN-5465/AN-I/2005 dated 11th May, 2005.

ABHIJIT KUMAR, Director

The 27th July 2007

No. PF. 189-R(2)/GN-5930/AN-I/2007.—The following officers have satisfactorily completed the probation period in the grade of Executive/Legislative/Committee/Protocol Officer :—

Sl. No.	Name
1	2
1.	Smt. N. K. Matharu
2.	Shri Raj Kumar Sharma
3.	Shri S. K. Ganguli
4.	Smt. Jagriti Tewatia

1	2
5.	Smt. Geeta Parmar
6.	Shri Ram Saroop Banga
7.	Shri Rakesh Bhardwaj
8.	Shri Ramesh Nebhnani
9.	Smt. Vijay Chopra
10.	Shri C. Babu Rao
11.	Shri Krishendra Kumar

2. This is in continuation of Notification Nos. GN-5385, 5386 and 5387 dated 5th March, 2005.

ABHIJIT KUMAR, Director

The 31st July 2007

No. PF. 1306-R(3)/GN-5933/AN-I/2007.—On attaining the age of superannuation, the following Officers have retired from service with effect from the afternoon of 31st July, 2007 :—

Sl. No.	Name	Designation
1.	Dr. Ram Naresh Singh	Jt. Director (Translation) Gr-I
2.	Shri Jagmohan Swaroop Vatsa	Jt. Director (Translation) Gr-I
3.	Shri L. C. Awasthy	Jt. Director (Security) Gr-I
4.	Smt. Usha Mathur	Jt. Director (LARRDIS) Gr-I (ad hoc)
5.	Shri K. M. Sharma	Jt. Director (Printing) Grade-II

ABHIJIT KUMAR, Director

The 20th August 2007

No. PF. 962-R(2)/GN-5938/AN-I/2007.—Shri Chakrapani Mishra, officiating Parliamentary Reporter Grade-II in a substantive capacity with effect from 5th May 2007.

2. This is in continuation of Notification No. GN-5469/AN-I/2005 dated 18th May, 2005.

ABHIJIT KUMAR, Director

No. PF. 188-R (2)/GN-5939/AN-I/2007.—The following officers have satisfactorily completed the probation period in the grade of Executive/Legislative/Committee/Protocol Officer:—

1. Shri Ram Chandra Sharma
2. Shri M. K. Rewari
3. Smt. Gursharan Kaur Mohi

2. This is in continuation of Notification Nos. GN-5348/AN-I/2005 dated 14th February, 2005 and GN-5386/AN-I/2005 dated 5th March, 2005.

ABHIJIT KUMAR, Director

The 31st August 2007

No. PF. 94-R (3)/GN-5956/AN-I/2007.—On attaining the age of superannuation, the following officers have retired from service with effect from the afternoon of 31st August, 2007:—

Sl. No.	Name	Designation
1.	Shri R. C. Jain	Dy. Secy. Grade-II
2.	Smt. Gurjeet Kaur Bhumbrao	Dy. Secy. Grade-II

ABHIJIT KUMAR, Director

#### PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 10th August 2007

No. A-12025/4/97-Admn. II.—In continuation of Planning Commission Notification of even number dated 16th January, 2007, the term of ad hoc appointment of the following seven regular Economic Officers as Research Officers in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- against vacant GCS posts in the Planning Commission is hereby extended for the period mentioned against their names, or until the posts are filled on regular basis or until further orders, whichever is the earliest :—

Sl. No.	Name of Officers	Date till which the ad hoc appointment is extended
	S/Shri	
1.	Babu Lal	31.12.2007
2.	N. Venkateswarlu	31.12.2007
3.	K. K. Makwana	31.12.2007
4.	Shyam Singh	31.12.2007
5.	Y. N. Khare	31.12.2007
6.	Dr. R. V. P. Singh	31.12.2007
7.	M. Joseph Eugene Raj	13.07.2007

2. The ad hoc appointment will not bestow on any of the above named seven Officers any claim for regular appointment in the grade of Research Officer and also that

any service rendered by any of them on ad hoc basis in the grade of Research Officer would neither count for the purpose of seniority in the grade of Research Officer nor towards eligibility for promotion to the next higher grade.

N. K. SHARMA, Under Secy.

The 10th September 2007

No. A-12025/05/99-Adm. II.—In continuation of Planning Commission Notification of even number dated 01.06.2004, the President is pleased to extend the term of deputation of Shri Kishore Chaudhary as Senior Research Officer (Coal) in the Planning Commission for a further period of one year i.e. for the fourth year w.e.f. 31.05.2007 or until further orders, whichever is earlier.

N. K. SHARMA, Under Secy.

New Delhi, the 10th September 2007

No. A-43011/15/07-Adm. I.—Consequent on their inclusion in the Select List for the year 2000 of Selection Grade of CSS (Deputy Secretary) vide Department of Personnel & Training's O. M. No. 4/2/2006-CS. I (D) dated 29th June, 2007, the President is pleased to appoint Shri M. P. Singh (CSL No. 3282) and Miss Asha (CSL No. 3292) as Deputy Secretary on regular basis w.e.f. 1.7.2000.

S. KESAVA IYER, Under Secy.

The 13th September 2007

No. A-43011/19/2005-Adm.—In pursuance of the ACC's approval communicated by the Department of Personnel & Training vide their Communication No. 7/1/2007-EO (SM. II), dated 11th September, 2007, the President is pleased to grant upgradation of pay to Shri B. N. Puri, Senior Adviser (Transport), Planning Commission to Rs. 26,000/- (Fixed) per month as personal to him w.e.f. 11th September, 2007.

S. KESAVA IYER, Under Secy.

SECRETARIAT OF THE  
ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi-110 001, the 31st August 2007

No. 193/22/6/2007 (BS).—On attaining the age of superannuation, Shri Birbal Sharma, Under Secretary in the Election Commission of India, retired from service w.e.f. the afternoon 31.08.2007.

STANDHOPE YUHLUNG, Under Secy.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE  
(DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS)

New Delhi, the 7th August 2007

No. A-32012/2/2006-Adm. I (LA).—The President is pleased to appoint Shri B. L. Choudhary, Deputy Government Counsel in the Department of Legal Affairs, Ministry of Law and Justice to officiate as Additional Government Counsel (Grade II of the Indian Legal Service) in the pay scale of Rs. 14,300-400-18,300/- in the same Department with effect from the forenoon of 11.7.2007 and until further orders. The appointment of Shri B. L. Choudhary as Additional Government Counsel is subject to the final outcome of the decision taken by the Competent Authority in pursuance of the Central Administrative Tribunal's Order dated 17th April, 2007 with regard to the O. A. No. 1609/2006 and 450/2006 and disposal of the related litigation filed in various courts.

Ms. KIRAN PURI, Director (Estt.)

No. A-32012/2/2006-Adm. I (LA).—The President is pleased to appoint Shri A. C. Prakash, Deputy Government Counsel in the Department of Legal Affairs, Ministry of Law and Justice to officiate as Additional Government Counsel (Grade II of the Indian Legal Service) in the pay scale of Rs. 14,300-400-18,300/- in the same Department with effect from the forenoon of 11.7.2007 and until further orders. The appointment of Shri A. C. Prakash as Additional Government Counsel is subject to the final outcome of the decision taken by the Competent Authority in pursuance of the Central Administrative Tribunal's Order dated 17th April, 2007 with regard to the O. A. No. 1609/2006 and 450/2006 and disposal of the related litigation filed in various courts.

Ms. KIRAN PURI, Director (Estt.)

No. A-32012/2/2006-Adm. I (LA).—The President is pleased to appoint Shri Inder Kumar, Deputy Government Counsel in the Department of Legal Affairs, Ministry of Law and Justice to officiate as Additional Government Counsel (Grade II of the Indian Legal Service) in the pay scale of Rs. 14,300-400-18,300/- in the same Department with effect from the forenoon of 11.7.2007 and until further orders. The appointment of Shri Inder Kumar as Additional Government Counsel is subject to the final outcome of the decision taken by the Competent Authority in pursuance of the Central Administrative Tribunal's Order dated 17th April, 2007 with regard to the O. A. No. 1609/2006 and 450/2006 and disposal of the related litigation filed in various courts.

Ms. KIRAN PURI, Director (Estt.)

No. A-32012/2/2006-Adm. I (LA).—The President is pleased to appoint Shri Ramayan Yadav, Deputy Government

Counsel in the Department of Legal Affairs, Ministry of Law and Justice to officiate as Additional Government Counsel (Grade II of the Indian Legal Service) in the pay scale of Rs. 14,300-400-18,300/- in the same Department with effect from the forenoon of 11.7.2007 and until further orders. The appointment of Shri Ramayan Yadav as Additional Government Counsel is subject to the final outcome of the decision taken by the Competent Authority in pursuance of the Central Administrative Tribunal's Order dated 17th April, 2007 with regard to the O. A. No. 1609/2006 and 450/2006 and disposal of the related litigation filed in various courts.

Ms. KIRAN PURI, Director (Estt.)

No. A-32012/2/2006-Admn. I (LA).—The President is pleased to appoint Shri G. Jayaramulu, Deputy Government Counsel in the Department of Legal Affairs, Ministry of Law and Justice to officiate as Additional Government Counsel (Grade II of the Indian Legal Service) in the pay scale of Rs. 14,300-400-18,300/- in the same Department with effect from the forenoon of 11.7.2007 and until further orders. The appointment of Shri G. Jayaramulu as Additional Government Counsel is subject to the final outcome of the decision taken by the Competent Authority in pursuance of the Central Administrative Tribunal's Order dated 17th April, 2007 with regard to the O. A. No. 1609/2006 and 450/2006 and disposal of the related litigation filed in various courts.

Ms. KIRAN PURI, Director (Estt.)

No. A-32012/2/2006-Admn. I (LA).—The President is pleased to appoint Shri J. T. Sulaxan Rao, Deputy Government Counsel in the Department of Legal Affairs, Ministry of Law and Justice to officiate as Additional Government Counsel (Grade II of the Indian Legal Service) in the pay scale of Rs. 14,300-400-18,300/- in the same Department with effect from the forenoon of 11.7.2007 and until further orders. The appointment of Shri J. T. Sulaxan Rao as Additional Government Counsel is subject to the final outcome of the decision taken by the Competent Authority in pursuance of the Central Administrative Tribunal's Order dated 17th April, 2007 with regard to the O. A. No. 1609/2006 and 450/2006 and disposal of the related litigation filed in various courts.

Ms. KIRAN PURI, Director (Estt.)

No. A-32012/2/2006-Admn. I (LA).—The President is pleased to appoint Shri S. K. Dullo, Deputy Government Counsel in the Department of Legal Affairs, Ministry of Law and Justice to officiate as Additional Government Counsel (Grade II of the Indian Legal Service) in the pay scale of Rs. 14,300-400-18,300/- in the same Department

with effect from the forenoon of 11.7.2007 and until further orders. The appointment of Shri S. K. Dullo as Additional Government Counsel is subject to the final outcome of the decision taken by the Competent Authority in pursuance of the Central Administrative Tribunal's Order dated 17th April, 2007 with regard to the O. A. No. 1609/2006 and 450/2006 and disposal of the related litigation filed in various courts.

Ms. KIRAN PURI, Director (Estt.)

New Delhi, the 6th September 2007

No. A-12023/10/2001-Admn. III (LA).—On attaining the age of 62 years, Shri B. L. Khatri, Accountant Member, Income Tax Appellate Tribunal stands retired on superannuation from Government Service with effect from the afternoon of 9th June, 2007 in accordance with Rule 11 of the Income Tax Appellate Tribunal Members (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1963.

YASHWANT SINGH, Dy. Secy.

#### MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 12th September 2007

No. I-18012/20/2006-IPS-I.—In exercise of the powers conferred by Rule 3-A of the Indian Police Service (Probation) Rules 1954, the President is pleased to confirm, the following members of the Indian Police Service, allocated to the Cadre of Tamil Nadu in the Indian Police Service, with effect from the dates indicated against each :—

Sl. No.	Name of the Officer	Due date of Confirmation in IPS
	S/Shri	
1.	M. T. Ganesamoorthy, (SPS : 1998)	21.05.2004
2.	C. Chandrasekhar, (SPS : 1998)	21.05.2004
3.	C. Easwaramoorthy, (SPS : 1998)	21.05.2004
4.	K. Shanmugavel (SPS : 1998)	21.05.2004

O. S. ASHOK, Under Secy.

#### MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (DEPARTMENT OF PERSONNEL AND TRAINING)

New Delhi, 12th September 2007

No. 24012/45/2006-Estt (B).—The President is pleased to appoint Shri Gyan Prakash Agarwal, IOF (87) as Regional



Director in the Western Regional Office of Staff Selection Commission at Mumbai for a period of five years with effect from 27th August, 2007 (Forenoon) or until further orders, whichever is earlier.

SUNEEL K. ARORA, Under Secy.

New Delhi, the 12th September 2007

No. A 32013/6/2007-Ad. I (G).—The President is pleased to appoint Dr. Syamal Kumar Sarkar, IAS (WB : 79) as Joint Secretary, in the pay scale of Rs. 18,400-500-22,400/- in Department of Personnel and Training with effect from the forenoon of 12th September, 2007, for a period of 5 years or until further orders, whichever is earlier.

V. K. VELUKUTTY, Under Secy.

New Delhi, the 13th September 2007

No. 14013/02.2005-AIS-III.—In exercise of the powers conferred by rule 3A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm, in the Indian Administrative Service, the following members of the Indian Administrative Service borne on the State Cadre of Gujarat, with effect from the dates shown against them :

Sl. No.	Name of the Officer	Batch	Date of Confirmation
1.	Shri J. C. Rathod	1996	25.04.2004
2.	Shri M. B. Parmar	1997	25.04.2004
3.	Shri R. M. Patel	1997	25.04.2004
4.	Shri N. R. Pandya	1997	25.04.2004
5.	Shri R. M. Sharma	1997	25.04.2004
6.	Shri R. R. Mehta	1997	25.04.2004

G. C. PANDEY, Under Secy.

MINISTRY OF FINANCE  
(DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 31st August 2007

No. 7, F. No. 6/1/2007-E. S.—The President is pleased to give Mr. Justice C. K. Mahajan, Chairman, Appellate Tribunal for Forfeited Property (ATFP), additional charge of Chairperson of the Appellate Tribunal under the Prevention of Money Laundering Act, 2002, in addition to his being the Chairman, ATFP, with effect from 20th August, 2007 (forenoon) upto the period he holds the post of Chairman, ATFP, or until further orders, whichever is earlier.

NAVEEN CHANDRA, Director

No. 8, F. No. 6/6/2005-E. S.—The President is pleased to appoint Shri Arun Kumar Agarwal as Member, Appellate Tribunal under the Prevention of Money-laundering Act, 2002 in the pay scale of Rs. 22,400-525-24,500/- with effect from the forenoon of 20th August, 2007 for a period of three years or till he attains the age of 62 years or until further orders, whichever is earlier.

NAVEEN CHANDRA, Director

New Delhi, the 14th September 2007

No. 2/2007, F. No. A. 15011/1/2007-CA.—The President is pleased to appoint Ms. S. Uma Venkatesan (IT : 1994), an Officer of Indian Revenue Service (IT) as Joint Commissioner in the Office of Competent Authority & Administrator, [Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976 and Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985], Chennai on deputation basis, with effect from the afternoon of 27th August, 2007 for a period of four years or until further orders, whichever is earlier.

S. K. TYAGI, Director

CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS

New Delhi, the 20th August 2007

INDIAN CUSTOMS & CENTRAL EXCISE  
ESTABLISHMENTS

No. 53 of 2007 (F. No. A-39012/02/2007-AD. II).—The President is pleased to accept the resignation tendered by Shri Bipin Sapra, Additional Commissioner of Central Excise and Service Tax, Delhi with effect from 15.06.2007 (AN).

ALOK AGARWAL, Under Secy.

The 24th August 2007

INDIAN REVENUE SERVICE (CUSTOMS &  
CENTRAL EXCISE) ESTABLISHMENTS

No. 56/2007 (F. No. A. 38012/19/2007-AD. II).—The President is pleased to accept the notice of Voluntary Retirement of Shri S. Sankaravadivelu, Joint Commissioner, Central Excise, Puduchery with effect from 23.08.2007 under Rule 48-A of CCS (Pension) Rules 1972.

ALOK AGARWAL, Under Secy.

The 27th August, 2007

No. 54 of 2007 (F. No. A-38012/12/2007-AD. II).—The President is pleased to accept the notice of voluntary retirement of Shri P. M. Parab, Deputy Commissioner of

Customs (pre.) Mumbai with effect from 15.08.2007 under Rule 48 of CCS (Pension) Rules, 1972. The acceptance of the notice of voluntary retirement is subject to the condition that the disciplinary proceedings shall be continued under Rule 9 of CCS (Pension) Rules.

ALOK AGARWAL, Under Secy.

(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 7th September 2007

No. A. 19011/17/2007-Admn. II.—The President is pleased to appoint Ms. Shyama Sharma Bansia, IRS (IT : 88), as Director, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance with effect from the forenoon of 6th September, 2007 for a period of five years or until further orders, whichever event takes place earlier.

V. RAMKUMAR, Under Secy.

No. A. 12011/21/2005-Admn. II.—Consequent upon their inclusion in the Select List of Grade I (Under Secretary) of CSS for the years 2001 and 2002, circulated vide DoPTs O. M. No. 5/2/2006-CS. I (Desk) dated 20.8.2007, the President is pleased to appoint the following officers of the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance to Grade I (Under Secretary) of CSS on regular basis with effect from 1st July of their respective Select List year as mentioned against each, and until further orders :—

Sl. No.	Name	CSL No.	Select List Year	Date of appointment
1.	Rakesh Malhotra	4037	2001	01.07.2001
2.	P. P. Murlidharan	4059	2001	01.07.2001
3.	Rohit Mathur	3432	2002	01.07.2002
4.	Ms. Sreyasi Chaudhury	3946-A	2002	01.07.2002
5.	A. Mahalingam	4092	2002	01.07.2002
6.	A. K. Ajmani	4123	2002	01.07.2002

2. The inter-se seniority of abovementioned officers in Grade I (Under Secretary) of CSS will follow the serial order given in their respective Select Lists, irrespective of their actual date of appointment to that Grade. The appointment of officers included in the abovementioned Select Lists, to the grade of Under Secretary on regular basis, shall be subject to the final outcome in the Civil Writ Petition No. 3269/2003, CWP No. 3912/2003 and CWP No. 13352/2005 in the High Court of Delhi.

V. RAMKUMAR, Under Secy.

New Delhi, the 17th September 2007

No. A. 12011/5/2005-Admn. IA.—The President is pleased to appoint Shri Ashok Kumar to the post of Deputy Controller of Aid, Accounts & Audit, Group 'A' Gazetted in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs on absorption basis with effect from the forenoon of 23rd August, 2007 and until further orders.

NEELAM VOHRA, Under Secy.

(DEPARTMENT OF DISINVESTMENT)

New Delhi-110 003, the 12th September 2007

No. 19011/3/2002-Admn.—In pursuance of Department Personnel and Training's Order No. 4/9/2006-CS. I (D) dated the 23rd August, 2007, the President is pleased to appoint Shri Surya Maiti, Under Secretary (Select List : 1996) of the Central Secretariat Service as Deputy Secretary (ad hoc) on personal upgradation basis in the Department of Disinvestment in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/-, with effect from the forenoon of 10th September, 2007. The ad hoc promotion to the grade of Deputy Secretary is subject to the following conditions :—

- (i) The ad hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Selection Grade;
- (ii) Ad hoc appointment may be terminated any point of time without giving any reason therefor.

S. K. SHARMA, Under Secy.

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

New Delhi-110 011, the June 2007

No. A-12023/16/98-Ad. IV (Vol. III).—Shri G. R. Bhatia, Additional Director General (I&R), in the office of the Director General of Investigation & Registration (DGI&R), retired voluntarily from the Government Service with effect from 01.02.2007 under Rule FR 56 (1-A)(a)&(b) of CCS (Pension) Rules, 1972.

P. C. PRATIHARI, Under Secy.

The 24th August 2007

No. A-12023/13/2006-Ad. IV.—The President is pleased to extend the period of ad hoc appointment of Shri I. S. Sain, Joint Director (Economics) in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/- in MRTTP Commission for a further period of 6 months i.e. w.e.f. 14.08.2007 to 13.02.2008 or till the post is filled up on regular basis or until winding up of MRTTP Commission, whichever is earliest.

P. C. PRATIHARI, Under Secy.

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY  
(DEPARTMENT OF COMMERCE)

New Delhi, the 3rd September 2007

No. 28/2007 (A-32012/1/2007-E.I).—In pursuance of Department of Personnel & Training Order No. 5/6/2007-CS. I (Desk) dated the 25th July, 2007, the President is pleased to appoint Ms. F. Deborah Initha (CSL No. 5494-A, DOB : 19.06.1973), Section Officer of Central Secretariat Service (CSS) to Grade-I (Under Secretary) on ad hoc basis in the Ministry of Commerce & Industry, Department of Commerce with effect from the forenoon of 27th August, 2007.

2. The ad hoc appointment of the above Officer is subject to the following :—

- (i) The ad hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade-I.
- (ii) Ad hoc appointment may be terminated at any time without giving any reason therefor.
- (iii) The above appointment shall be subject to the order dt. 11.01.2007 of the Central Administrative Tribunal, Principal Bench, New Delhi, in M. A. No. 2170/2006, O. A. No. 2793/2005, M. A. No. 2710/2005.

ANURAG SAXENA, Director

New Delhi, the 13th September 2007

No. T-49015/1/2005-Plant 'A'.—The President is pleased to appoint Smt. Roshni Sen, IAS (WB : 1993) as Deputy Chairman, Tea Board on deputation basis for a period of four years with effect from 31.08.2007 (AN) or until further orders, whichever even takes place earlier.

K. K. PHULL, Under Secy.

DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE

New Delhi, the 11th September 2007

No. 18/2007 (F. No. A. 11013/1/2007-HRD-I/4242).—Sanction of the President is hereby accorded to encadrement of the post of Development Commissioner for SEZ at Mundra, Gujarat, into Indian Trade Service (ITS) Group 'A', in pay scale of Rs. 18,400-500-22,400/- under administrative control of Directorate General of Foreign Trade (DGFT) in Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce, with effect from date of publication of the notification in the Official Gazette.

2. This issues with the concurrence of Department of Personnel and Training vide Dy. No. I-11012/1/2006-CRD

dated 30.8.2007 and Department of Commerce vide O. M. No. A-6 (10)/2002-EPZ dated 26th June, 2007.

R. S. GUJRAL,  
Director General of Foreign Trade  
and *ex-officio* Additional Secretary

MINISTRY OF TEXTILES

New Delhi, the 3rd September 2007

No. 15/2007 (F. No. A-19011/6/2005-Estt.).—Shri Sudripta Roy, IAS (HP : 78) will stand relieved of the post of Joint Secretary, Ministry of Textiles, with effect from the afternoon of 5th September, 2007, consequent upon his selection for appointment as Secretary General, International Jute Study Group Dhaka, Bangladesh on foreign service terms of deputation for a period of three years w.e.f. the date of his assumption of charge of the said post.

MUKTA NIDHI SAMNOTRA, Director

MINISTRY OF STEEL

New Delhi, the 3rd September 2007

No. 2(12)/2006-Estt.—On completion of his Central deputation tenure, Shri Ashutosh Baranwal, IC&CES (1990), Director, Ministry of Steel is hereby relieved of his duties with effect from the afternoon of 3rd September, 2007. The services of Shri Baranwal will accordingly stand placed at the disposal of his parent cadre from the same date.

G. VAIDHEESWARAN, Under Secy.

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM  
ENTERPRISES

New Delhi, the 13th August 2007

No. A-18011/57/2004-Estt.—Consequent on the inclusion of his name in the Select List of Selection Grade of CSS (Deputy Secretary) for the year 2000 by the Department of Personnel & Training vide their O. M. No. 4/2/2006-CS-I (D) dated 29th June, 2007, the President is pleased to appoint Shri Jagjit Singh, Grade-I Officer of the Central Secretariat Service to the Selection Grade of CSS (Deputy Secretary) on regular basis.

P. S. VERMA, Under Secy.

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY  
(DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY)

New Delhi-110 016, the 29th August 2007

No. A-12025/01/07-Admn. I(A).—Consequent upon inclusion of their names in the Select List for the year 2002 for appointment to the Grade-I (Under Secretary) of CSS vide DoP&T's O. M. No. 5/2/2006-CS. I (Desk) dated 20th August, 2007, the President is pleased to appoint the following officers of CSS to the Grade I (Under Secretary)

of CSS on a regular basis in the Department of Science & Technology w.e.f 01.07.2002 :—

1. Shri L. K. Chawla
2. Shri C. R. Gangadharan
3. Shri S. P. Katmauria

2. The officers would be entitled to arrears on account of re-fixation of their pay from the date of their actual appointments to the post of Under Secretary. In addition, they shall also be entitled to exercise the option for fixation of their pay as provided in provisions of FR-22.

SITA RAM GUPTA, Desk Officer

No. A-12025/01/07-Admn. I(A).—Consequent upon inclusion of their names in the Select List for the year 2001 for appointment to the Grade-I (Under Secretary) of CSS vide DoP&T's O. M. No. 5/2/2006-CS. I (Desk) dated 20th August, 2007, the President is pleased to appoint the following officers of CSS to the Grade-I (Under Secretary) of CSS on a regular basis in the Department of Science & Technology w.e.f 01.07.2002 :—

1. Shri Rabindra Prasad
2. Shri B. K. Raichandani

2. The officers would be entitled to arrears on account of re-fixation of their pay from the date of their actual appointments to the post of Under Secretary. In addition, they shall also be entitled to exercise the option for fixation of their pay as provided in provisions of FR-22.

SITA RAM GUPTA, Desk Officer

(DEPARTMENT OF SCIENCE & INDUSTRIAL RESEARCH)

New Delhi-110 016, the 11th September 2007

No. A-19018/02/2007-Estt.—The President is pleased to appoint Sh. Vinay Kumar, SRO, Central Soil & Material Research Station as Scientist 'D' in the Department of Scientific & Industrial Research in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/- on deputation basis with effect from the forenoon of 28th August, 2007 for a period of two years or till the post is filled on regular basis, whichever is earlier.

2. The deputation of Sh. Vinay Kumar to the Department of Scientific & Industrial Research will be regulated in accordance with the instructions of the Department of Personnel & Training contained in OM No. 2.29/91-Estt. (Pay. II) dated 5th January, 1994, as amended from time to time.

S. K. KALRA, Under Secy.

MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

New Delhi-110 003, the 22nd August 2007

No. A-19011/1/2001-P. II (.).—Consequent upon his inclusion in the Select List of Selection Grade officers of the Central Secretariat Service (CSS) for the year 2000 vide Department of Personnel & Training O. M. No. 4/2/2006-CS. I (D) dated 29th June, 2007, the President is pleased to appoint Shri P. S. Sharma as Deputy Secretary on regular basis in the Ministry of Env. & Forests in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/-.

M. L. WADHWANI, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE  
(DEPARTMENT OF HEALTH)

New Delhi-110 011, the 11th September 2007

No. A-12025/5/2006-CHS. I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. (Smt.) Nidhi Sharma to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- in a temporary capacity with effect from forenoon of the 25th June, 2007 until further orders Dr. (Smt.) Nidhi Sharma is posted as Medical Officer under Central Government Health Scheme, Mumbai Dr. (Smt.) Nidhi Sharma shall be on probation for two years.

(Smt.) MAYA PRAKASH, Under Secy.

(DEPARTMENT OF HEALTH & FAMILY WELFARE)

New Delhi-110 011, the 13th August 2007

No. A-22012/3/2007-Estt. III.—Consequent upon his having been promoted to the Supertime Grade in the scale of pay of Rs. 18,400—22,400/- vide Ministry of Health & Family Welfare Order No. A. 32012/5/2005-CHS-III dated 20.07.2007, Dr. S. D. Khaparde has assumed the charge of the post of Deputy Commissioner in the Department of Health & Family Welfare with effect from 31.07.2007 (FN).

2. Dr. S. D. Khaparde is posted as Deputy Commissioner (ID) in this Department

P. G. KALADHARAN, Under Secy.

DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES

New Delhi, the 12th September 2007

No. A-38013/2/2007-Admn.-I.—On attaining the age of superannuation Shri R. L. Mathur, Research Officer (IDD) in the Directorate General of Health Services retired from Government service with effect from 31.8.2007 (Afternoon).

B. N. PRASAD, Dy. Director Admn. (BNP)

MINISTRY OF AGRICULTURE  
(DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY,  
DAIRYING & FISHERIES)

New Delhi, the 6th September 2007

No. A-19011/16/2007-Admn. I.—The President is pleased to appoint Shri Rajiv Pratap Dubey as Assistant Director (Fishing Harbour) on the recommendation by Union Public Service Commission in the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- w.e.f. the forenoon of 31st August, 2007 in the Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries until further orders.

P. L. MEENA, Under Secy.

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE RESEARCH &  
EDUCATION)

New Delhi, the 12th September 2007

No. A-19013/34/2004-Estt.—In pursuance of Department of Personnel & Training's Order No. 4/2/2007-CS. I dated 16th August, 2007, the President is pleased to appoint Shri Ram Autar, a Central Secretariat Service (CSS) officer presently working as Deputy Secretary on ad hoc basis w.e.f. 24.8.2004 (FN) as Deputy Secretary in the Department of Agricultural Research & Education on regular basis w.e.f. 1.7.1999. The pay of Shri Ram Autar shall be fixed on notional basis w.e.f. 1st July of 1999. However, he shall draw the actual benefit w.e.f. 24.8.2004 (FN) i.e. the date on which he assumed charge to the post of Deputy Secretary.

D. K. CHHATWAL, Under Secy.

MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS

New Delhi, the 27th August 2007

No. F. 1-18/2004-YS. I.—In pursuance of Rule 9 (a) of Rules of the Nehru Yuva Kendra Sangathan, Shri S. Raja Kumar, and Shri S. N. Subba Rao are hereby nominated as members by the Government of India to the Board of Governors of Nehru Yuva Kendra Sangathan against two vacancies under eminent persons.

2. The term of membership of Shri S. Raja Kumar and Shri S. N. Subba Rao will be three years from the date of their nominations or till further orders, whichever is earlier. This will be subject to other provisions of the Bye-laws and rules of Nehru Yuva Kendra Sangathan.

SARADA ALI KHAN, Director (YA)

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND  
EMPOWERMENT

New Delhi-1, the 10th September 2007

No. 17014/32/97-SCD-IV.—The President is pleased to appoint Shri Sanjiv Kumar Mittal, I. A. S., Financial Adviser, 6-252 GI/2007

Ministry of Social Justice & Empowerment as Official Director on the Board of Directors of National Safai Karamchari's Finance & Development Corporation, in place of Shri Mritunjay Sahoo, with immediate effect and until further orders.

NILAMBUJ SHARAN, Dy. Secy.

No. 17014/32/97-SCD-IV.—In pursuance of Article 52 (vi) of Memorandum of Association & Articles of Association of National Safai Karamchari's Finance & Development Corporation (NSKFDC), the President is pleased to appoint Smt. Renuka Krishnan D'Souza, Assistant General Manager (Corporate Communication & Change Department), State Bank of India, as Official Director on the Board of Directors of NSKFDC, in place of Shri Ravi Bansal, Deputy General Manager, with immediate effect and until further orders.

NILAMBUJ SHARAN, Dy. Secy.

New Delhi-110001, the 11th September 2007

No. 16011/2/2002-SCD-IV.—In terms of Article 56 of the Article of Association of National Scheduled Caste Finance & Development Corporation, the President is pleased to appoint Shri Sanjiv Kumar Mittal, in his capacity as Joint Secretary & Financial Adviser, Ministry of Social Justice & Empowerment as Official Director on the Board of Directors of National Scheduled Caste Finance & Development Corporation, in place of Shri Mritunjay Sahoo, with immediate effect and until further orders.

R. S. MEENA, Director

New Delhi, the 12th September 2007

No. 1-9/2007-DD-IV.—In pursuance of Appointment Committee of Cabinet, Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions, Department of Personnel & Training O. M. No. 4/15/2007-EO (SM. I) dated 5th July, 2007, the President is pleased to appoint Shri Atul Prasad, IAS (BH : 87) as Joint Secretary and Chief Executive Officer in National Trust for the Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities in the pay scale of Rs. 18,400-500-22,400/- for a period of five years with effect from 22nd August, 2007 or until further orders whichever is earlier. vice Dr. Vinod Aggarwal, IAS (JH : 80).

K. N. MISHRA, Under Secy.

NATIONAL COMMISSION FOR MINORITIES

New Delhi-110 003, the 12th September 2007

No. 15-2/2005-Estt.—In continuation of this Commission's Notification of even number dated 18.4.2006,

the President is pleased to extend the term of deputation of Sh. Puranjay Sharma, Legal Officer for one year from 29.8.2007 to 28.8.2008 or until further orders, whichever is earlier on the existing terms and conditions.

2. This issues with the approval of Competent Authority.

P. M. S. NARAYANAN, Under Secy.

### NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

New Delhi-110 003, the 5th September 2007

No. 14/12/NCST/2007-Admn.—The President is pleased to appoint Shri Wilfred Lakra, IAS (CG : 73) as Secretary, National Commission for Scheduled Tribes w.e.f. afternoon of 31.8.2007.

R. P. VASISHTHA, Dy. Secy.

### MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY (DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY) NATIONAL INFORMATICS CENTRE

New Delhi-110 003, the 13th September 2007

No. A-39012/1/1995-Adm.-II.—The President is pleased to accept the resignation of Sh. C. Ravi Kumar, (Emp. Code No. 2086), from the post of Scientist/Engineer Gr. 'SC', National Informatics Centre—Andhra Pradesh State Unit, Hyderabad, with effect from the afternoon of 17.12.1996 and he is relieved of his duties from the same day.

P. S. PILLAI, Dy. Director (Adm-II)

### (DEPARTMENT OF POSTS)

New Delhi-110 001, the 5th September 2007

No. 4-6/2007-SPG.—The President is pleased to grant proforma promotion to Subedar V. Kaleeswaran, presently working in Army Postal Service, to the grade of Junior Time Scale (Rs. 8,000-275-13,500/-) of Indian Postal Service Group 'A' in terms of clause-II of F. R. 22 w.e.f. 03.04.2007 i.e. the date on which his next immediate junior viz. Shri Somnath Chuchra joined the promotional post in pursuance of Order No. 4-33/2005-SPG dt. 30.03.2007.

B. P. PANT, Asstt. Director General (SGP)

The 10th September 2007

No. 2-33-2003-SPG.—The President is pleased to appoint the following officers of the Indian Postal Service Group-A to officiate against the post in the Non-Functional Selection Grade in the Junior Administrative Grade of the Service

(Scale of pay of Rs. 14,300-400-18,300/-) w.e.f. the date of placement in NFSG as indicated against the name of each officer, until further orders :—

Sl. No.	Name of the Officer	Year of Recruitment	Date of placement in NFSG
	Ms/S/Shri		
1.	Amrit Raj	1994	01.01.2007
2.	Akashdeep Chakravarty	1994	01.01.2007
3.	R. Anand	1994	01.01.2007
4.	Abha Singh	1994	01.01.2007
5.	T. Mariamma	1994	01.01.2007
6.	T. Q. Mohammad	1994	01.01.2007
7.	J. T. Venkateswarlu	1994	01.01.2007
8.	Debtoru Chatterjee	1994	01.01.2007
9.	Vineet Mathur	1994	01.01.2007
10.	N. Vinod Kumar	1994	01.01.2007
11.	Shobha Madhale	1994	01.01.2007
12.	T. Mangminthang	1994	01.01.2007

B. P. PANT, Asstt. Director General (SGP)

### MINISTRY OF RAILWAYS (RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 10th September 2007

No. E(GP)2005/1/42.—The President is pleased to approve of Shri Girdhar Singh (SC), a Group 'B' officer of Stores Department of Northern Railway, being appointed to the Group 'A'/Junior Scale of Indian Railway Stores Service (IRSS) with effect from 19th September, 2000 on that Railway.

MATHEW JOHN, Secy., Railway Board

No. ERB-I/2007/2/44.—Shri K. C. Jena, IRTS, Member (Staff), Railway Board, is appointed as Chairman, Railway Board and ex-officio Principal Secretary to the Government of India, with effect from the afternoon of 31.08.2007.

MATHEW JOHN, Secy., Railway Board

No. E(GP)2004/1/58.—The President is pleased to appoint Shri S. S. Ali, a Group 'B' officer of Traffic Department of West Central Railway, to the Junior Scale of Indian Railway Traffic Service (IRTS) with effect from

16th April, 2007 on that Railway, against the panel for the year 2006-07.

MATHEW JOHN, Secy., Railway Board

No. ERB-I/2004/2/37.—Shri A. K. Abrol, IPS (WB : 72), Additional Director General, Railway Protection Force, Railway Board, is granted in-situ upgradation to the rank of Special Director General, Railway Protection Force, Railway Board, in Grade Rs. 24,050-650-26,000/-, with effect from the forenoon of 31.08.2007.

MATHEW JOHN, Secy., Railway Board

The 12th September 2007

No. E(O)III-2007/RN/24.—Consequent upon his permanent absorption in KRCL, Shri V. C. Sinha, Selection Grade/IRTS, has resigned from Railway service with effect from 01.08.2007.

MATHEW JOHN, Secy., Railway Board

#### MINISTRY OF POWER

New Delhi, the 10th September 2007

No. 23/07-F. No. 2/9/2007-Adm. II.—The President is pleased to appoint Shri Kapil Mohan, IAS (KN : 1990), as Director in the Ministry of Power with effect from the forenoon of the 10th September, 2007 for the balance period of his normal tenure of five years *i.e.* upto 20th June, 2009 or until further orders, whichever event takes place earlier.

R. C. ARORA, Under Secy.

#### MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

New Delhi, the 11th September 2007

No. 18/24/2007-Admn. II.—Consequent upon his promotion to the post of Assistant Director (OL) and his nomination to the Ministry of Information & Broadcasting *vide* Department of Official Language's Office Order No. 5/3/2005-O. L. (S) dated 24.07.2007, the President is pleased to appoint Shri Dilip Kumar Nigam, Sr. Hindi Translator in the cadre of Ministry of Information & Broadcasting as Assistant Director (OL), on ad hoc basis, in the Ministry of Information & Broadcasting in the scale of pay of Rs. 7,500-250-12,000/- with effect from 24.07.2007 (FN), for a period of six months or till the post is filled up on regular basis, whichever is earlier.

2. The above appointment will be governed by the terms and conditions as mentioned in the Department of Official Language's Office Order, *ibid.*

RAM PHAL, Under Secy.

#### MINISTRY OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION

New Delhi, the 20th August 2007

No. N-11027/16/2005-UPA-III.—The President is pleased to extend the ad hoc appointment of Shri M. Jayachandran, a regular Section Officer of the CSS cadre of the Ministry of Urban Development as Deputy Director (J. N. N. U. R. M.) on ad hoc basis in the Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation for a further period of six months from 25th July, 2007 (FN) to 24th January, 2008 or till the post is filled up on regular basis, whichever is earlier.

2. The above appointment is purely on ad hoc basis against one vacancy of Deputy Director (Ex-Cadre) in the scale of Rs. 10,000-325-15,200/- in the Directorate of the Sub-Mission of Jawahar Lal Nehru National Urban Renewal Mission (JNNURM) in the Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation and will not confer any right to the officer to continue indefinitely or for seniority in the grade or for promotion to the higher grade etc. The Government reserves the right to terminate the ad hoc appointment without assigning any reasons or giving notice etc. to the officer concerned.

R. C. RANGA, Section Officer (Admn.)

#### MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT

New Delhi, the 10th September 2007

No. A-22012/1/2006-Adm. I.—Consequent upon their inclusion in the Select List of Grade-I of CSS Cadre mentioned against each, the President is pleased to appoint the following officers in Grade-I of the Central Secretariat Service (CSS), on regular basis as detailed below :—

Sl. No.	Name & Designation	CSL No.	Select List Year	Date of appointment
1.	Sh. A. K. Agnihotri	4039	2001	w.e.f. 01.07.2001
2.	Ms. Sanjukta Ray	3878-A	2002	w.e.f. 01.07.2002
3.	Sh. R. K. Ahluwalia	4132	2002	w.e.f. 01.07.2002
4.	Sh. O. P. Guliani	4151	2002	w.e.f. 01.07.2002

2. The appointment of officers included in the aforesaid Select Lists, to the Grade of Under Secretary on regular basis, shall be subject to the final outcome in the Civil Writ Petition No. 3269/2003 and CWP No. 13352/2005 in the High Court of Delhi.

PRADEEP GAUR, Under Secy.

New Dehi, the 13th September 2007

No. A-12025/14/2001-ISH. II.—The President is pleased to appoint the following officers to the post of Deputy Director of Mines Safety (Mining) in the Directorate General of Mines Safety, Dhanbad with effect from the date shown against their names and until further orders :—

Sl. No.	Name of the Officer	Date of appointment in the Grade of Deputy Director of Mines Safety (Mining)
1	2	3
1.	Shri Bhushan Prasad Singh	16.05.2007 (F/N)
2.	Shri Deo Kumar	16.05.2007 (F/N)

1	2	3
3.	Shri Shyam Sundar Prasad	18.05.2007 (F/N)
4.	Shri Rajib Pal	25.05.2007 (F/N)
5.	Shri Bipul Bihari Satiar	04.04.2007 (F/N)
6.	Shri Kamal Kumar Sharma	15.06.2007 (F/N)
7.	Shri Ramawatar Meena	28.06.2007 (F/N)
8.	Shri Manoranjan Doley	29.05.2007 (F/N)

M. S. AZAD, Under Secy.